



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1960]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 26, 2009/अग्राहायण 5, 1931

No. 1960]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 26, 2009/AGRAHAYANA 5, 1931

दिल्ली विकास प्राधिकरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(मुख्य योजना अनुभाग)

(MASTER PLAN SECTION)

सार्वजनिक सूचना

PUBLIC NOTICE

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2009

New Delhi, the 26th November, 2009

का.आ. 3019(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण/केन्द्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11क के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना-2021/जोन 'एफ' की क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो अथवा कोई सुझाव देना हो, तो वह अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के अन्दर प्रधान आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में भेज सकता है। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम और पता भी दें।

संशोधन :

“सादिक नगर स्थित 3468.43 वर्ग मीटर क्षेत्र, जो उत्तर में योजना क्षेत्र केन्द्र/स्थानीय बाजार (भाग) से, पश्चिम में सी.जी.एच. एस. डिस्पेंसरी एवं के. लो. नि. वि. के पूछताछ कार्यालय से, दक्षिण में प्रस्तावित पुलिस चौकी से और पूर्व में 45 मीटर रोड से घिरा हुआ है, के भूमि उपयोग को 'आवासीय' से 'सरकारी' उपयोग (सरकारी कार्यालय) में परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव है।”

प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उक्त अवधि के दौरान सभी कार्य दिवसों में संयुक्त निदेशक (मुख्य योजना), दिल्ली विकास प्राधिकरण, छठा तल, विकास मीनार, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली में उपलब्ध रहेगा।

[फा. सं. एफ-1(32)05/एम.पी.]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

S.O. 3019(E).—The following modifications which the Delhi Development Authority/Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi-2021/Zonal Development Plan for Zone 'F' under Section 11A of DD Act, 1957 is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send the objection/suggestion in writing to the Principal Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, New Delhi-110023 within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his/her name and address.

MODIFICATION:

“It is proposed to change the land use of an area measuring 3468.43 sq.m. at Sadiq Nagar bounded by Planning Area Centre/Local Shopping (Part) in the North, CGHS Dispensary & CPWD Inquiry Office in the West, Proposed Police Post in the South, 45 mtr. Road in the East from 'Residential' to 'Government' Use (Govt. Office)”.

The plan indicating the proposed modification is available for inspection at the office of Jt. Director (MP), Delhi Development Authority, 6th Floor, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi on all working days during the period referred above.

[F. No. F-1(32)05/MP]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.